







## सम्पादकीय

### मरहम का बत्त

ऑक्सीजन का अभाव न केवल दुखद, बल्कि पूरे देश के लिए एक अवसर भी है। यह सबक है कि हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को इस तरह दुरुस्त करने में लग जाएं कि फिर कभी ऐसी महामारी आए भी, तो हमें परेशान न करें। अकेले दिल्ली के गणराम अस्पताल में आर 24 घण्टे में 25 मरीजों की मौत हुई है, तो देश के दूसरे अस्पतालों में वहां हो रहा होगा, इनका अंदराजा हम सहज ही लगा सकते हैं। यदि बहुत लोगों की मौत हुई है, तो ये भी यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है, लेकिन अगर ये मौतें ऑक्सीजन से जुड़ी किसी कमी के कारण हुई हैं, तो हमारी व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। निजी अस्पतालों को सुविधाओं और संसाधनों के लिए जाना जाता है, ऐसे ही अस्पतालों में गणराम अस्पताल भी शर्मिल है। ऐसे अस्पतालों से वह भी उम्मीद की जाती है कि सार्वजनिक अस्पतालों के समान एक अद्वितीय पेश करें। सार्वजनिक अस्पतालों पर जो दबाव बना हुआ है, वह कोई नया नहीं है, लेकिन जब निजी अस्पताल भी हाफने लगे हैं, तब यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है। विगत दशकों में जिस तरह से निजी अस्पतालों को फलने-फूलने दिया गया है और जिस तरह से निजी अस्पतालों का आरपन ग्राहक व संख्या बढ़ी है, तभी दिसावर से उनसे उम्मीद भी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से आपात स्थिति है, तो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भी इस पर तकरार अधिकारी की बात नहीं है। नेताओं के बीच तकरार बढ़ना तय है, क्योंकि दोषरोपण की प्रवृत्ति पुरानी है, लेकिन अब जब नेताओं की बीच संघर्ष हो, तो आम लोगों को सचेत हरना चाहिए। अब याद रखना चाहिए कि जब बाहर खाली हो, तब राजनीतिक दल के साथ व्यवहार कर रहे थे? यह समय परायियों के झड़े लहराने का नहीं है, अब बात देश के झड़े पर आ गई है। भारत कोरोना ही नहीं, अभी कोई बड़ा केंद्र नजर आ रहा है। अभी महीने भर पहले ही अम दबावों और टोके की अंतर्राष्ट्रीय वितरण कर वाहाही बढ़े थे। अब समय आ गया है कि हम अपनी मांग पहले पूरी करें। दुनिया इस बात को समझती है कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और यहां चिकित्सा व्यवस्था को चाक-चौबूद रखना उतना असान नहीं है। हमने देखा है, जब अमेरिका या युरोपीय देशों में कोरोना की लहर चरम पर थी, तब वहां भी चिकित्सा सेवाओं का ऐसा ही स्थान था। पर देशों से युद्ध भारत पर इंतजार है। एक देश का पढ़ी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगभग भड़क उठ थे। आज ट्रंप की उस नाराजगी को समझा जा सकता है। सेंचिएर, राष्ट्रीय राजधानी जब ऑक्सीजन मांग रही है, तब देश के बालों में क्या स्थित होगी? राज्य सरकारों को भी भीमिका को अच्छे से समझने की जरूरत है। राज्यों में अपनी भीमिका को अच्छे से समझने की जरूरत है। राज्यों में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा दें। जब कोरोना खत्म हो जाए, तो वह फैल में बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा तो चढ़ उड़ावा है कि कसकरें सभाल नहीं पा सकते। यह लोगों के दुख-दर्द पर मरहम लगाने का बक जाए, जो सकरें इस काम को अंजाम देंगी, देश उन्हें हमेशा याद रखेगा।


## क्रिकेट में भी जुए का मजा लीजिए

विद्युत उपन्यासकार स्वर्णी श्रीताल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में एक चरित्र है- रामायान। यह सालव रियाई टाप बढ़े हैं और गाव भी नोजानों से जाया खेलते हैं। इन दिनों बहुत ग्रामीण हो लिए हैं। आर्योपील देखिए, वह बाहर ग्रामीण बनाया है, यह नोजानों की अंतर्गत है। राज्यों में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा दें। जब कोरोना खत्म हो जाए, तो वह फैल में बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना को पढ़ी जाए, तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसी राजनीति सूझ रही है, वह बहुत होना चाहिए। गणराम या नासिक के हावड़ा में एक व्यापक चेतावनी टाइप भी दी जानी है, जिसका अशय यही है कि ऐसे खेल की लत लग सकती है, इसलिए साधारण रोटी। तो जो नोजानों को किए जाएं तो जो नोजानों को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं है। विफलता को मानने और गलत

# पार्टनर को सरप्राइज़ देने के कुछ आसान तरीके

आम दिन को बनाएं खास

जब कोई खास दिन मन्दिर बैलॉटाइन डे, शादी की सालगिरह या जन्मदिन होता है, तब तो आपका पार्टनर आपसे कुछ उपहार की अपेक्षा करता ही है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सरप्राइज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी दिन को उनके लिए खास बना सकते हैं। यकीन मानिए वह सोचते ही रह जाएंगे कि अधिक उम्र दिन में ऐसा क्या खास है और शाम को जब उन्हें पता चलेगा कि आपने सारे सरप्राइज़ सिर्फ उनके खुश करने के लिए लौटाया किए थे तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। वैसे भी कहते हैं न कि प्रेम करने या उसे व्यक्त करने के



लिए कोई खास वर्क नहीं होता। आप अपने प्यार का इजहार कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं।

## छोड़ें लव मैसेज

पार्टनर को सरप्राइज़ करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, उनके लिए लव मैसेज छोड़ना। इंटरनेट के इस युग में हर किसी के फोन में मैसेज सुखिया होती है लेकिन कागज पर लिखे लव मैसेज का कार्ड जवाहर नहीं। आप अपने लव मैसेज की शुल्कात दिन से कर सकते हैं। मन्दिर, आप उनके अलार्म में अपना यारा सा मैसेज बोल कर भी किंवदं कर सकते हैं। ऐसे में उनके दिन की शुल्कात आपकी प्यारी आवाज व आपके सदृश के साथ होती। साथ ही जब वह फोन अलार्म बंद करने के लिए फोन उठाएंगे तो उनके चेहरे पर एक भीनी-भीनी सी मुस्कान भी होगी। इसके अतिरिक्त आप बाथरूम की विंडो, बेकफास्ट के साथ, फिज पर, बेड पर रखे उनके कपड़ों के साथ, लंच बॉक्स में, उनके बैग में भी लव मैसेज लिखकर छोड़ सकती हैं। लेकिन मैसेज छोड़ने समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका लव मैसेज आपके पार्टनर को ही मिले।

## करें खुलकर इजहार

आपत्तर पर देखने में आता है कि कपल्स एक-दूसरे से मोहब्बत तो बोहंता है लेकिन कभी भी उसका इजहार नहीं करता। इसलिए आप अपने पार्टनर को सरप्राइज़ करना चाहते हैं तो एक बार उन्हें अपने प्यार का इजहार करें। ऐसा जल्दी नहीं है कि आप उनके सामने जाकर ही अपने प्यार का इजहार करें। आप चाहें तो उनके लिए रेडियो या टीवी पर भी अपना प्रेम मैसेज या उनके फेवरिट सॉन्स डिकेट कर सकते हैं।



## पकाएं कुछ खास

कहते हैं कि आदिम के दिल का गर्सा उसके पेट से होकर जाता है। इसलिए आप अपने पार्टनर को सरप्राइज़ करना चाहती हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप उनके लिए उनका मनपसंद भोजन बनाएं। याम को थक बर अपने पसंदीदा भोजन को देखकर उनका चेहरा खिल उठेगा। आप अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी डिश की शेप में भी चंग कर सकती हैं।

मन्दिर, आप आप बेकफास्ट में कटलेट बना रही हैं तो उसे राउंड बनाने की बीजाय हार्ट शेप में बनाएं या फिर कॉफी के ऊपर दिल बनाकर है। इसलिए आप अपने पार्टनर को सरप्राइज़ करना चाहती हैं तो अलग तरर से पोरेस कर अपने प्यार को बख्खी बयां कर सकते हैं। आप आपके पास समय है तो आप खाने के साथ-साथ डेकोरेशन को भी थोड़ा खास बनाएं। आप घर की एट्रीम से ही ऐसा माहौल बनाएं, कि आपके पार्टनर वस सरप्राइज़ ही होते चले जाएं।

## अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है अनार

अनार एक ऐसा फल है जो खाने में तो सभी को अच्छा लगता है लेकिन उसे छीलने की मेहनत कोई नहीं करना चाहता। दरअसल, अनार को छिलके में काफी समय खर्च होता है, इसलिए लोग इसे लाने से बचते हैं। लेकिन आज हम आपको अनार से मिलने वाले कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी अनार को अपने घर लाने से नहीं करतरहए। इतना ही नहीं, इसे छिलने में भी आपको किसी तरह का अलास नहीं होगा-

## बढ़ाए खुन

अनार में आपको प्रचुरता पाई जाती है, जिसके कारण यह आपके शरीर में खुन के स्तर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। यह तो आप जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोग एनीमिक हैं और खुन की कमी एनीमिक होने का एक मुख्य कारण है। इसलिए आप अपनी याददाश्त कमज़ोर है या किंतु तानव से लेकर विभिन्न मानसिक बीमारियों में इसका सेवन की सेवन विशेष रूप से लाभदायी माना जाता है। अगर आप प्रतिदिन खाली पेट अनार का रस पिएंगे तो कुछ ही दिनों में आपका वजन बढ़ने लगेगा। डुलेप्ट को दूर करने के साथ-साथ यह शारीरिक कमज़ोरी को खत्म करने में भी काफी मददगार साबित होता है।

**मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक**  
अनार सिर्फ आपको शारीरिक तौर पर ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि इसका सेवन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा होता है। दरअसल, अनार में पॉलीफेनोल नामक सूखम पोषक तत्व पाया जाता है, जिसे डिजेनेरिव बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसलिए आप अपनी याददाश्त कमज़ोर है या किंतु तानव से लेकर विभिन्न मानसिक बीमारियों में इसका सेवन की सेवन



आसानी से खा सकते हैं।

काली मिर्च लगाकर इसे खाएं। आपको तुरंत असर नजर आएगा।

## पेट नहीं कराए परेशान

अनार हमारी पेट की सभी परेशानियों को दूर करके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है।

अगर आपको अनार का सेवन अवश्यक करना चाहिए। दरअसल, इसमें फ्रैटोज पाया जाता है और जब आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको शुगर नहीं बढ़ती। इसमें मधुमेह रोगी भी वेंटिक होकर इसे में अपने अनार के दानों में नमक और

## खुन करे पतला

आपको बाद तो खाना पता न हो लेकिन अनार हांसे शरीर के लिए एक नेनुरल एस्प्रिन्स का काम करता है। यह न सिर्फ खुन को पतला करता है, बल्कि जिन लोगों को खुन के बचके जमने की समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी यह टीक करता है। साथ ही खुन डिलेर होता है। इसकी सेवन की शक्ति में आप अनार के दानों में नमक और

## शुगर करे नियंत्रित

अगर आप मधुमेह की समस्या से पीड़ित हैं तो भी आपको अनार का सेवन अवश्यक करना चाहिए। दरअसल, इसमें फ्रैटोज पाया जाता है और जब आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको शुगर नहीं बढ़ती। इसमें भी मधुमेह की स्थिति में भी इसका सेवन किया जा सकता है। इसे की समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी यह टीक करता है। साथ ही खुन डिलेर होता है।

कामने की सेवन करने में आपको नियंत्रित करना चाहिए।

## फ्रिज से बदबू को दूर करने के तरीके

जब आप सुबह उठते हैं और नाश्ता बनाने के लिए फ्रिज खोलते हैं तो उसमें से जब स्पेल आती है तो आपकी भूख ही मर जाती है। ऐसे में आपका मन ही नहीं करता कि आप नाश्ता तैयार करें। फ्रिज से आप वाली बदबू से न सिर्फ आपकी भूख पर ही विपरीत असर पड़ता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो इसलिए आज हम आपको फ्रिज की बदबू मिटाने के कुछ आसान तरीके हैं-



**करें खाली :** आप आपके पास समय है तो फ्रिज की बदबू मिटाने के लिए इस तरीके को अपनाया जा सकता है। इसके लिए आप फ्रिज को पूरी तरह काटकर उसके काटकर उसके से उत्पन्न खाली बदबू को खाली करें। वहीं सिरके और पानी की मिलाकर भी फ्रिज की बदबू को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इससे आपका फ्रिज भी एकदम शान करने आपके काटकर बदबू न हो, इसके लिए आप समय-समय पर अनेक तरीकों को अवश्यक खोलते होंगे।

**एयरटाइट कंटेनर का प्रयोग :** आगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रिज में खाने की चीजों की सीधी बदबू मिटाने के लिए इसके बदबू तो खत्म होती है, साथ ही नेनुरल एस्प्रिन्स का काम करता है। यह न सिर्फ खुन को पतला करता है, बल्कि जिन लोगों को खुन के बचके जमने की समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी यह टीक करता है। साथ ही यह टीक करता है। इससे आपका फ्रिज भी एकदम शान करने लगेगा। शाद आपको जानकर हैरानी हो लेकिन कॉफी के बीजों को फ्रिज में भरकर रखने से उत्पन्न की बदबू खत्म हो जाती है।

**सही हो अरेंजमेंट :** अमूमन लोग फ्रिज में अपने खाने का सामान रखते हैं लेकिन बहुत से लोगों को उसे रखने से तरीका है कि आपका भोजन इसके बाहर में बंद करके रखें। इससे खाने का नुकसान तो होता है ही, साथ ही फ्रिज में भी बदबू फैल जाती है। इस स्थिति से बचने का सबसे असान तरीका है कि आप फ्रिज के ऊपरी हिस्से में रखें ताकि आप फलों और स्विचिंगों को फ्रिज के ऊपरी हिस्से में रखें ताकि आपको भी यह टीक होने से अपने खाने का नुकसान हो जाए। इससे खाने का नुकसान तो होता है ही, साथ ही फ्रिज में भी बदबू फैल जाती है। इस स्थिति से बचने का सबसे असान तरीका है कि आप फ्रिज के ऊपरी हिस्से में रखें ताकि आपको भी यह टीक होने से अपने खाने का नुकसान हो जाए। इससे खाने का नुकसान तो होता है ही, साथ ही फ्रिज में भी बदबू फैल जाती है। इससे आपका फ्रिज में खाने का नुकसान हो जाए। इससे आपका फ्रिज में खाने का नुकसान हो जाए। इससे आपका फ्रिज में खाने का नुकसान हो जाए। इससे आपका फ्रिज में खाने का नुकसान





